



## लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण के उपरान्त भुगतान हेतु लाभार्थी द्वारा दिया जानेवाला आवेदन पत्र

आवेदन की तिथि:

सत्यापन की तिथि:

भुगतान की तिथि:

### आवेदन संख्या:-

सेवा में,  
माननीय मुखिया,

दिनांक:

पंचायत: ..... प्रखण्ड: ..... जिला: .....

विषय: वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण एवं नियमित उपयोग के बाद प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैंने अपने घर में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण कर लिया है और हमारे परिवार के सभी सदस्य शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि नीचे दिये गये मेरें व्यक्तिगत विवरण को जांच ले और सही पाये जाने पर शौचालय निर्माण के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की कृपा करें।

1. लाभार्थी का नाम:	2. पिता/पति का नाम:
3. टोला:	4. गांव:
5. लाभार्थी परिवार की श्रेणी: अ.ज.जा: <input type="checkbox"/> अ.जा: <input type="checkbox"/> महिला प्रधान परिवार: <input type="checkbox"/> छोटे एवं मध्यम किसान: <input type="checkbox"/> भूमिहीन मजदूर: <input type="checkbox"/> शारीरिक रूप से विकलांग: <input type="checkbox"/>	6. ए.पी.एल (संख्या): 7. बी.पी.एल (संख्या): 8. ए.पी.एल/बी.पी.एल (संख्या) नहीं है <input type="checkbox"/> 9. बेसलाईन क्रम संख्या (मुखिया/वार्ड सदस्य/प्रखण्ड समन्वयक से संपर्क कर लिखें):
10. खाता धारक का नाम:	15. मोबाइल संख्या:
11. बैंक खाता संख्या:	16. शौचालय निर्माण का तिथि:
12. बैंक का नाम:	
13. बैंक शाखा का नाम:	
14. बैंक का IFSC कोड:	

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने अपने परिवार के नाम पर पूर्व में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं लिया है और न किसी सरकारी योजना के तहत मेरे परिवार के लिए शौचालय निर्माण किया गया है।

मैंने संकल्प लिया है कि मैं और मेरा परिवार शौचालय का नियमित उपयोग करेगा। मैं और मेरा परिवार स्वच्छता के प्रति सजग रहेगा और उसके लिए समय देगा। मैं और मेरा परिवार हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करेगा। मैं और मेरा परिवार न गंदगी करेगा न किसी को करने देगा। मैं और मेरा परिवार अन्य 100 व्यक्तियों से भी स्वच्छता का संकल्प करवायेगा। स्वच्छता के तरफ बढ़ाया गया हमारा यह कदम पूरे बिहार को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित की जाती है।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

अनुलग्नक: 1. शौचालय के साथ लाभार्थी का तस्वीर 2. लाभार्थी परिवार की श्रेणी का प्रमाणपत्र

पावती.....

आवेदन संख्या .....

दिनांक .....

श्रीमान/श्रीमति ..... द्वारा निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालय की जांच दिनांक ..... को किया गया तथा शौचालय के सभी घटकों के साथ पूर्ण  / अपूर्ण  पाया गया।

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

वार्ड सं0..... ग्राम..... पंचायत.....

प्रखण्ड समन्वयक का नाम एवं हस्ताक्षर



## लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थी द्वारा दिया जानेवाला आवेदन पत्र

आवेदन की तिथि:

सत्यापन की तिथि:

भुगतान की तिथि:

आवेदन संख्या:-

सेवा में,  
सदस्य सचिव,  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति .....

दिनांक:

विषय: वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण लिए के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैंने अपने घर में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण का निर्णय किया है जिससे मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्य शौचालय का उपयोग कर सके। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा शौचालय निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. लाभार्थी का नाम:	2. पिता/पति का नाम:
3. टोल:	4. गांव: पंचायत: प्रखण्ड:
5. लाभार्थी परिवार की श्रेणी: अ.ज.जा: <input type="checkbox"/> अ.जा: <input type="checkbox"/> महिला प्रधान परिवार: <input type="checkbox"/> छोटे एवं मध्यम किसान: <input type="checkbox"/> भूमिहीन मजदूर: <input type="checkbox"/> शारीरिक रूप से विकलांग: <input type="checkbox"/>	6. ए.पी.एल (संख्या): 7. बी.पी.एल (संख्या): 8. ए.पी.एल/बी.पी.एल (संख्या) नहीं है <input type="checkbox"/> 9. बेसलाइन क्रम संख्या (मुखिया/वार्ड सदस्य/प्रखण्ड समन्वयक से संपर्क कर लिखें):
10. खाता धारक का नाम:	15. मोबाइल संख्या:
11. बैंक खाता संख्या:	16. शौचालय निर्माण का तिथि:
12. बैंक का नाम:	
13. बैंक शाखा का नाम:	
14. बैंक का IFSC कोड:	

मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने अपने परिवार के नाम पर पूर्व में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं लिया है और न किसी सरकारी योजना के तहत मेरे परिवार के लिए शौचालय निर्माण किया गया है।

मैंने संकल्प लिया है कि मैं और मेरा परिवार शौचालय का नियमित उपयोग करेगा। मैं और मेरा परिवार स्वच्छता के प्रति सजग रहेगा और उसके लिए समय देगा। मैं और मेरा परिवार हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं और मेरा परिवार न गंदगी करेगा न किसी को करने देगा। मैं और मेरा परिवार अन्य 100 व्यक्तियों से भी स्वच्छता का संकल्प करवाऊँगा। स्वच्छता के तरफ बढ़ाया गया हमारा यह कदम पूरे बिहार को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे द्वारा सत्यापित की जाती है।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

पावती.....

आवेदन संख्या .....

दिनांक .....

श्रीमान/श्रीमति ..... द्वारा स्वयं व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण के लिए अनुरोध किया गया है।

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

वार्ड सं0.....ग्राम.....पंचायत.....

प्रखण्ड समन्वयक का नाम एवं हस्ताक्षर

नोट: प्रखण्ड समन्वयक का पद रिक्त होने तथा प्रभारी की अनुपलब्धता में कनीय अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।



## लोहिका स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण जाँच प्रतिवेदन (यह प्रपत्र जॉच कार्यकर्त्ता द्वारा भरा जायेगा)

लाभार्थी का नाम:	श्रेणी:	शौचालय के साथ लाभार्थी की तस्वीर
शौचालय निर्माण की तिथि:		
<b>निर्मित शौचालय के घटक</b>		
1. शौचालय का प्रकार <input type="checkbox"/> सेप्टिक टैंक सोखता गढ़दा के साथ <input type="checkbox"/> कम्पोस्ट शौचालय <input type="checkbox"/> दो गढ़डे वाला लिच पीट शौचालय		
2. पैन का प्रकार:	रुरल पैन <input type="checkbox"/> अरबन पैन <input type="checkbox"/>	लाभार्थी से प्राप्त तस्वीर चिपकायें
3. ईट का सुपर स्ट्रक्चर:	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
4. छत:	प्रीकास्ट (RCC) <input type="checkbox"/> एसबेस्टस <input type="checkbox"/>	
5. दरवाजा:	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
6. शौचालय में पानी भंडारण की तथा हाथ धोने की व्यवस्था:	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
7. दो लिच पिट शौचालय के लिए Y जंक्शन / जंक्शन चेम्बर:	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमान/श्रीमती ..... द्वारा निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालय की जाँच की गयी तथा उक्त घटकों के साथ पूर्ण <input type="checkbox"/> / अपूर्ण <input type="checkbox"/> पाया गया।		
वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर	प्रखण्ड समन्वयक का नाम एवं हस्ताक्षर	
वार्ड सं. ....	ग्राम.....	पंचायत.....



## लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

शौचालय निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (यह प्रपत्र जॉच कार्यकर्ता द्वारा भरकर कार्यालय में जमा किया जायेगा)

श्री/ श्रीमति ..... पिता/ पति ..... पता ..... द्वारा  
निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालय की जांच दिनांक ..... को किया गया तथा शौचालय के सभी घटकों के साथ पूर्ण  /अपूर्ण  पाया गया। जॉच में पाया गया कि पूर्व में उक्त परिवार को किसी भी सरकारी योजना (संपूर्ण स्वच्छता योजना/ निर्मल भारत योजना/ लोहिया स्वच्छता योजना) के अंतर्गत शौचालय निर्माण का प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुआ है  /प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त हुआ है  ।

उक्त प्रमाण के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छता योजना के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है  / नहीं की जा सकती है  ।

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

वार्ड सं. ....

ग्राम.....

प्रखण्ड समन्वयक का नाम एवं हस्ताक्षर

पंचायत.....

.....(कार्यालय उपयोग हेतु).....

श्री/ श्रीमति ..... , पिता/ पति ..... द्वारा निर्माण किये गये व्यक्तिगत शौचालय की जांच उपरान्त ..... रु0 का भुगतान किया गया।

प्रोत्साहन राशि के लिये उचित योजना : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)  /लोहिया स्वच्छता योजना

भुगतान का विधि : व्यक्तिगत चेक द्वारा  RTGS  NEFT

चेक संख्या..... दिनांक .....

रोकड़पाल  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति.....

कार्यपालक अभियंता  
—सह—सदस्य सचिव  
जिला जल एवं स्वच्छता समिति.....



## प्रमाण पत्र

### भूमिहीन मजदूर

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ..... , पिता/पति ..... , ग्राम ..... , पंचायत ..... , प्रखंड ..... , जिला ..... का निवासी है।

श्री/श्रीमति ..... के पास अपना कोई जमीन का रकबा नहीं है एवं भूमिहीन मजदूर की श्रेणी में आता है।

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

मुखिया का नाम एवं हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत....., प्रखंड ....., जिला .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ..... , पिता/पति ..... , ग्राम ..... , पंचायत ..... , प्रखंड ..... , जिला ..... का निवासी है।

श्री/श्रीमति ..... के पास ..... एकड़ जमीन से कम का रकबा है एवं लघु/सिमान्त किसानकी श्रेणी में आता है।

पटवारी का नाम एवं हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत.....  
प्रखंड .....

मुखिया का नाम एवं हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत.....  
प्रखंड .....

जिला .....

### महिला प्रधान घर

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति ..... , पिता/पति ..... , ग्राम ..... , पंचायत ..... , प्रखंड ..... , जिला ..... का निवासी है एवं उनके परिवार में वयस्क पुरुष मुखिया नहीं है।

श्रीमति ..... अपने परिवार के मुखिया खुद हैं और यह परिवार महिला प्रधान परिवार है।

वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर

मुखिया का नाम एवं हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत....., प्रखंड ....., जिला .....